

14 फरवरी 2027, रविवार

खाना	☐ चावल छोले	☐ कचौरी			
मिठाईयां	☐ सूजी का हलवा				

15 फरवरी 2027, सोमवार

नाश्ता	☐ मिक्स पकोड़ा	☐ चाय-कोल्ड ड्रिंक्स	☐ ब्रैड पकोड़ा		
खाना	☐ चावल	☐ मटर पनीर	☐ दाल मखनी	☐ मिक्स सब्जी	☐ बुंदी रायता
	☐ पापड़	☐ अचार	☐ सलाद	☐ नान	☐ मिस्सी रोटी
मिठाईयां	☐ मावा बर्फी	☐ गुलाब जामुन	☐ गाजर का हलवा	☐ काला जाम	20 किलो खोया
भाजी	☐ लड्डू	☐ खुरमा चीनी के	☐ खुरमा गुड़ के	☐ सुहाली	100 किलो